

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा।

पत्रांक 2027

आरा, दिनांक 22.12.2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक
बैंक आफ बड़ौदा
शाखा- के0जी0 रोड आरा।

विषय:- सतीश चन्द्रा के नाम से जमा FD का सत्यापन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सतीश चन्द्रा पता- न्यू कॉलोनी पकड़ी आरा जिला-भोजपुर जो New Maintenance Policy-2018 योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-MR-N/22-23/Ara/22 पथ में डाला गया जमा-पुष्टि (F.D) आपके शाखा से निर्गत किया गया है जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा के नाम से प्रतिज्ञित है जिसका सत्यापन कर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सूचित किया जाए जो नीचे निम्न प्रकार है।

क्रमांक	FD	निर्गत करने की तिथि	समाप्ति की तिथि	राशि
1.	79880300001893	26.08.2022	26.08.2023	2,25,000.00
2.	79880300002057	22.12.2022	22.12.2023	90,000.00
3.	79880300002058	22.12.2022	22.12.2023	2,50,000.00
	Total			5,65,000.00

Dear Sir,
we have lien this all
the three FDR in the
name of EE RWDWONG
Division with our
Bank of Baroda, K.G.
Road, Ara Branch.

22/12/2022

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा।
22.12.22





बैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank



Deposit Confirmation Advice

SATISH CHANDRA S/O SURESH PRASAD, NEW COLONY, PAKRI, ARRAH, DIST-BHOJPUR 802301 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	79880300001893
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2608223718
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	HF4V03682
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	79880200000030
		शाखा का नाम/Branch Name	KG ROAD ARRAH
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)		
नामांकन / Nomination			
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	CALPC1369M		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		
संयुक्त धारक / Joint Holder (s)			
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)			

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
225000	26-08-2022	5.30	12 Months 0 Days	26-08-2023	237164

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू की जाएगी जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम. ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू की जाएगी जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii). Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit has to be given to Bank.
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledge - E.E. RWD WORK DIVISION ARA



गुण प्रमाण / Deposit Confirmation Advice

SATISH CHANDRA		सांठि खाता नं./ FD A/c No	70880300002057
S/O SURESH PRASAD, NEW COLONY, PAKRI, ARRAH, DIST-BHOJPUR 802301 INDIA		सांठि गुणमा नं./ FD Advice No	FDR2212223322
		गस्टगर् आइडी नं./ Customer ID No	HF4V03682
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	70880100002161
		शाखा नं नाम/Branch Name	KG ROAD ARRAH
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संगुपत धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	001		
पैन नंबर / PAN No.	CALFC1369M		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
90000	22-12-2022	6.10	12 Months 0 Days	22-12-2023	95617

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्वेषा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15जी/15एच/15ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा खोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म 15ए केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i) 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगनी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके 1% रेट से 1% कम ii) 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगनी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके 1.5% रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक की कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





पुंजा पति पुचना / Deposit Confirmation Advice

SATISH CHANDRA		साथी, योजना नं./ FD A/c No	70980300002058
S/O SURESH PRASAD, NEW COLONY, PAKRI, ARRAH, DIST-BHOJPUR 802301 INDIA		साथी सूचना नं./ FD Advice No	FDR2212222834
		ग्राहक आईडी नं./ Customer ID No	HF4V03692
		प्रकार / Linked Operative a/c	70980300000030
		शाखा का नाम/Branch Name	KG ROAD ARRAH

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामित पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1		
पैन नंबर / PAN No.	CALPC1369M	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लिफ्टन चिह्नित / Lien Marked	Y		

जमा राशि / Deposit Amount	कार्य करने की तिथि / Date of Issue	व्यवहार / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिमत्तता तिथि / Maturity Date	परिमत्तता मूल्य / Maturity Value
250000	22-12-2022	6.10	12 Months 0 Days	22-12-2023	255502

निपटवत तब डिविडेंड के अंशों (रॉन्डिंग आउटपर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. बचत दर वार्षिक में दर्शाई है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण स्वतः।	2. Automatic Renewal Cause:
1). यदि जमागत निधिगत के दिने के 1 वर्ष के ऊपर अधिक अवधि के लिए के नई जमागति या नवीकरण दर तबतक या वार्षिक बचत दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	1) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
2). यदि निर्दिष्ट न हो तो 1 वर्ष के कम अवधि के लिए के नई जमागति या नवीकरण दर तबतक या वार्षिक बचत दर के अनुसार इनके के अवधि में लिए किया जाएगा।	2) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. धर्मे 15 के अंतर् 15 पर दिए निर्देशों का कार्य के लिए है।	3. Para 15B and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. किसी व्यक्तिगत द्वारा जमागत दिनांक पर में इनके निर्दिष्ट सीमा तक होने के नई तक कम 15 लाख 15 लाख 15 लाख (रुपये) तबतक किया जाए, अन्यथा बचत या नई स्वतः के बचती।	4. A form 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. धर्मे पर बचत वार्षिक बचतों (60) पर के अधिक 25) के है नवीकरण किए जायेंगे।	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. पैनलगत जमागत स्वतः।	6. Premature Withdrawal Cause:
1). बचत तक के जमागति के पैनलगत अवधि के नई इनके अनुसार (निर्देशों) या 1% के बचतों अवधि अवधि तक किए जाते के तबतक के निर्देशों अवधि तक के के छोड़ के इनके नई पर के 1% बचत।	1) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
2). बचत के अधिक के के जमागति के पैनलगत अवधि के नई इनके अनुसार (निर्देशों) या 1.5% के बचतों अवधि अवधि तक किए जाते के तबतक के निर्देशों अवधि तक के के छोड़ के इनके नई पर के 1.5% बचत। बचत के अधिक के के जमागति के पैनलगत अवधि के नई इनके अनुसार के लिए के के बचत के बचत 1) दिने पूर्व द्वारा के बचती है।	2) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 30 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature